

षष्ठः पाठः छात्रः पठति

छात्रः पठति। (एकवचन)
कः पठति ?
छात्रः पठति।

छात्र पढ़ता है।
कौन(एक) पढ़ता है ?
छात्र पढ़ता है।

छात्रौ पठतः। (द्विवचन)
कौ पठतः ?
छात्रौ पठतः।

दो छात्र पढ़ते हैं।
कौन (वे दो) पढ़ते हैं ?
दो छात्र पढ़ते हैं।

छात्राः पठन्ति। (बहुवचन)
के पठन्ति ?
छात्राः पठन्ति।

अनेक छात्र पढ़ते हैं।
कौन (वे सब) पढ़ते हैं ?
अनेक छात्र पढ़ते हैं।

अत्र कः खेलति ?
बालकः खेलति।

यहां कौन खेलता है ?
बालक खेलता है।

अत्र के खेलन्ति ?
अत्र बालकाः खेलन्ति।

यहां कौन (वे सब) खेलते हैं ?
यहां सभी बालक खेलते हैं।

कः खादति ?
वानरः खादति।

कौन खाता है ?
बंदर (एक) खाता है।

के खादन्ति ?
वानराः खादन्ति।

कौन (सब) खाते हैं ?
अनेक बंदर खाते हैं।

एषः कः ?
एषः गजः।
गजः चलति।

यह कौन ?
यह हाथी।
हाथी (एक) चलता है।

एते के ?
एते गजाः।
गजाः चलन्ति।

ये कौन ?
ये हाथी।
अनेक हाथी चलते हैं।

कः गर्जति ?
सिंहः गर्जति।
तत्र सिंहौ गर्जतः।

कौन गर्जना करता है ?
शेर गर्जना करता है।
वहां दो शेर गर्जना करते हैं।

के गर्जन्ति ?
सिंहाः गर्जन्ति।

ये (सब) कौन गरजते हैं ?
अनेक शेर गरजते हैं।

एषः कः ?
एषः अश्वः।
अश्वः धावति।

यह कौन ?
यह घोड़ा।
घोड़ा दौड़ता है।

एते के ?
एते अश्वाः।
अश्वाः धावन्ति।

ये कौन ?
ये घोड़े।
घोड़े दौड़ते हैं।

एषः पिकः।
पिकः कूजति।

पिकौ कूजतः।
पिकाः कूजन्ति।

यह कोयल।
कोयल कूकती है।
दो कोयल कूकती हैं।
अनेक कोयल कूकती हैं।

एषः शुकः
शुकः वदति।
शुकौ वदतः।
शुकाः वदन्ति।

यह तोता बोलता है।
दो तोते बोलते हैं।
अनेक तोते बोलते हैं।

२. उचित क्रिया पद द्वारा मंजूषा पूर्ति कीजिए-

गजः चलति। उदाहरणम्
१. पिकः कूजति।
२. अश्वः धावति।
३. सिंहः गर्जति।
४. शुकः वदति।
५. वानरः खादति।

३. उदाहरणानुसार वाक्य बहुवचन में बदलकर लिखिए-
एकवचन। बहुवचन

१. छात्रः पठति।	१. छात्राः पठन्ति।
२. गजः चलति।	२. गजाः चलन्ति।
३. शुकः वदति।	३. शुकाः वदन्ति।
४. कः खादति।	४. के खादन्ति।
५. एषः अश्वः।	५. एते अश्वाः।

४. कोष्ठक से उचित विकल्प चुनकर वाक्य की पूर्ति कीजिए-

१. सिंहाः गर्जन्ति।
२. पिकः कूजति।
३. छात्रौ पठतः।
४. बालकाः खेलन्ति।
५. अश्वः धावति।

५. प्रश्न- निर्माण कीजिए-

उत्तर- १. के खेलन्ति ?
२. कः खादति ?
३. कः लिखति ?
४. कौ पठतः ?